

Ezr

Chapter 10

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
 בֵּית לְפָנָי וּמִתְנַפְּלִים בָּכָה וּבְהִתְרוֹתָיו עֲזָרָא וּבְהִתְפַּלֵּל
 भवन-के साम्हने और-गिरते-हुए रोते-हुए और-जब-वह-अंगीकार-कर-रहा-था एज्रा और-जब-प्रार्थना-कर-रहा-था
[H6440](#) [H5307](#) [H1058](#) [H3034](#) [H5830](#) [H6419](#)

כִּי וַיִּלְחִימוּ וַיִּשְׁמְעוּ אֲנָשִׁים מְאֹד רַב-בְּדִי קָהָל מִיִּשְׂרָאֵל אֲלֵיוּ נִקְבְּצוּ הָאֱלֹהִים
 क्योंकि बच्चों और-स्त्रियों पुरुषों-की बहुत बड़ी सभा इस्राएल-से उसके-पास इकट्ठे-हुए परमेश्वर-के
[H3206](#) [H0802](#) [H0376](#) [H3966](#) [H6951](#) [H3478](#) [H0413](#) [H6908](#) [H0430](#)

בְּכֹן הָעָם הַרְבֵּה-: בָּכָה-: כֹּן
 रोए लोग बहुत-फूट-फूट-कर
[H1058](#) [H1059](#)

एज्रा प्रार्थना कर रहा था और पापों को स्वीकार कर रहा था। वह परमेश्वर के मन्दिर के सामने रो रहा था और झुक कर प्रणाम कर रहा था। जिस समय एज्रा यह कर रहा था उस समय इस्राएल के लोगों का एक बड़ा समूह स्त्री, पुरुष और बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। वे लोग भी जोर—जोर से रो रहे थे।

2
 וַיַּעַן שְׁכַנְיָה בֶן-יְחִיאֵל מִבְּנֵי [עוֹלָם] (עֵילָם) וַיֹּאמֶר לְעֲזָרָא אֲנַחְנוּ
 और-बोला शकन्याह पुत्र यहीएल-का पुत्र यहीएल-का पुत्रों-में-से-एक एलाम-के [--] और-कहा एज्रा-से हमने
[H0587](#) [H5830](#) [H0559](#) [H3171](#) [H7935](#)

מְעַלְלֵנוּ מִקְוָה יֵשׁ-וַעֲתָה וְהֶאֱרִין מֵעַמִּי נְכַרְיָת וְנִשְׁבַּב וְנִשְׁבַּב בְּאֵלֵינוּ מְעַלְלֵנוּ
 अपराध-किया-है आशा है पर-अब देश-के लोगों-में-से विदेशी पत्नियाँ और-ली-हैं हमारे-परमेश्वर-के-विरुद्ध अपराध-किया-है
[H3426](#) [H6258](#) [H0776](#) [H5237](#) [H0802](#) [H3427](#) [H0430](#) [H4603](#)

לְיִשְׂרָאֵל עַל-זָאת-:
 इस्राएल-के-लिए के-बावजूद इसके
[H2063](#) [H3478](#)

तब यहीएल के पुत्र शकन्याह ने जो एलाम के वंशजों में से था, एज्रा से बातें कीं। शकन्याह ने कहा, “हम लोग अपने परमेश्वर के भक्त नहीं रहे। हम लोगों ने अपने चारों ओर रहने वाले दूसरी जाति के लोगों के साथ विवाह किया। किन्तु यद्यपि हम यह कर चुके हैं तो भी इस्राएल के लिये आशा है।

3
 וְהֶאֱרִין מֵעַמִּי נְכַרְיָת וְנִשְׁבַּב בְּאֵלֵינוּ מִקְוָה יֵשׁ-וַעֲתָה וְהֶאֱרִין מֵעַמִּי
 और-जो-जन्मे-हैं पत्नियाँ सब निकालने-को हमारे-परमेश्वर-से वाचा हम-बाँधें और-इसलिए
[H1992](#) [H3205](#) [H0802](#) [H3605](#) [H3318](#) [H0430](#) [H1285](#) [H3772](#) [H6258](#)

וְהֶאֱרִין מֵעַמִּי נְכַרְיָת וְנִשְׁבַּב בְּאֵלֵינוּ מִקְוָה יֵשׁ-וַעֲתָה וְהֶאֱרִין מֵעַמִּי
 और-व्यवस्था-के-अनुसार हमारे-परमेश्वर-की आज्ञा-पर और-उनकी-जो-काँपते-हैं मेरे-स्वामी सलाह-के-अनुसार
[H8451](#) [H0430](#) [H4687](#) [H2730](#) [H0113](#) [H6098](#)

अब हम अपने परमेश्वर के सामने उन सभी स्त्रियों और उनके बच्चों को वापस भेजने की वाचा करें। हम लोग यह एज्रा की सलाह मानने के लिये और उन लोगों की सलाह मानने के लिये करेंगे जो परमेश्वर के नियमों का सम्मान करते हैं। हम परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे।

4
 כִּי-קוֹם עֲלֶיךָ וְנִשְׁבַּב בְּאֵלֵינוּ מִקְוָה יֵשׁ-וַעֲתָה וְהֶאֱרִין מֵעַמִּי
 क्योंकि उठ तेरी-जिम्मेदारी और-हम यह-काम-है तेरे-साथ-हैं और-हम
[H2388](#) [H0587](#) [H1697](#)

एज्रा खड़े होओ, यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है, किन्तु हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। अतः साहसी बनो और इसे करो।”

10	וַיִּקְרָא तब-उठा	עֲזָרָא एज़्रा	הַכֹּהֵן याजक	וַיֹּאמֶר और-कहा	אֵלָהֶם उनसे	אַתֶּם तुमने	מֵעֲלֵהֶם अपराध-किया-है	וַתָּשִׁיבוּ और-ली-हैं	נָשִׁים पत्नियों	נְכָרִיּוֹת विदेशी	לְהוֹסִיף जोड़ते-हुए
					H0413	H0559	H4603	H3427	H0802	H5237	H3254

עַל-
को

אַשְׁמַת
दोष

יִשְׂרָאֵל:
इसाएल-के

[H3478](#)

[H0819](#)

तब याजक एज़्रा खड़ा हुआ और उसने उन लोगों से कहा, "तुम लोग परमेश्वर के प्रति विश्वासी नहीं रहे। तुमने विदेशी स्त्रियों के साथ विवाह किया है। तुमने वैसा करके इसाएल को और अधिक अपराधी बनाया है।

11	וַעֲתָה अब-इसलिए	תָּגוּ करो	תוֹרָה अंगीकार	לִיהְוָה यहोवाह-से	אֱלֹהֵי- परमेश्वर	אַבְתֵּיכֶם तुम्हारे-पितरों-के	וַעֲשׂוּ और-करो	רְצוֹנוֹ उसकी-इच्छा	וַהֲבַדְלֹוּ और-अलग-हो-जाओ
	H6258	H5414	H8426	H3068	H0430	H0001	H7522	H0914	

מֵעַמֵּי
लोगों-से

הָאָרֶץ
देश-के

וּמִן-
और-से

הַנָּשִׁים
पत्नियों

הַנְּכָרִיּוֹת:
विदेशी

[H0776](#)

[H0802](#)

[H5237](#)

अब तुम लोगों के यहोवा को सामने स्वीकार करना होगा कि तुमने पाप किया है। यहोवा तुम लोगों के पूर्वजों का परमेश्वर है। तुम्हें यहोवा के आदेश का पालन करना चाहिए। अपने चारों ओर रहने वाले लोगों तथा अपनी विदेशी पत्नियों से अपने को अलग करो।"

12	וַיַּעֲנוּ तब-जवाब-दिया	כָּל- सब	הַקָּהָל सभा-ने	וַיֹּאמְרוּ और-कहा	קוֹל आवाज-से	כֵּן हैं	כַּדְבָרְךָ जैसा-तूने-कहा-है	עָלֵינוּ हमें
	H3605	H6951	H0559			H1697	H1697	H1697

לְעֲשׂוֹת:
करना-चाहिए

तब पूरे समूह ने जो एक साथ इकट्ठा था, एज़्रा को उत्तर दिया। उन्होंने ऊँची आवाज़ में कहा: "एज़्रा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो! हमें वह करना चाहिये जो तुम कहते हो।

13	אֲבָל —	הָעַם —	רַב- बहुत-हैं	וְהָעֵת और-यह-मौसम-है	גְּשָׁמִים भारी-वर्षा-का	וְאִין और-नहीं	כַּח- शक्ति-है-हमारी	לְעֲמֹד खड़े-रहने-की	בַּחוּץ बाहर
	H0061			H6256	H1653	H0369		H5975	H2351

	וְהַמְּלָאכָה और-यह-काम	לֹא- न-ही-है	לְיוֹם दिनों-का	אֶחָד एक	וְלֹא या	לְשָׁנִים दो	כִּי- क्योंकि	הַרְבִּינוּ बहुत-हैं-हम-जिन्होंने	לְפָשַׁע अपराध-किया-है	בְּדַבְּרֵךָ काम-में
	H4399	H3808	H3117	H0259	H3808	H8147			H6586	H1697

הַזֶּה:
इस

[H2088](#)

किन्तु यहाँ बहुत से लोग हैं और यह वर्षा का समय है सो हम लोग बाहर खड़े नहीं रह सकते। यह समस्या एक या दो दिन में हल नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने बुरी तरह पाप किये हैं।

14	יַעֲמְדוּ- खड़े-हो	נָא कृपया	שָׁרִינוּ हमारे-हाकिम	לְכָל- सब-के-लिए	הַקָּהָל हमारी-सभा	וּכְל- और-सब	אֲשֶׁר जो	בְּעָרֵינוּ हमारे-नगरों-में	הַהָשִׁיב उन्होंने-जिन्होंने-ली-हैं
	H5975	H4994	H8269	H3605	H6951	H3605			H3427

	נָשִׁים पत्नियों	נְכָרִיּוֹת विदेशी	יָבֵא आएँ	לְעֵתִים समयों-पर	מִזְמָנִים निश्चित	וְעִמָּהֶם और-उनके-साथ	זְקֵנֵי- प्राचीन	עִיר हर-एक	וְעִיר और-उनके-नगरों-के	וְשַׁפְּטִיךָ और-न्यायाधीश
	H0802	H5237	H0935	H6256	H2163	H2205				H8199

	עַד का	לְהָשִׁיב जब-तक-न-फिर-जाए	תְּרוֹן भड़कता	אָף- क्रोध	אֶל-הֵינוּ हमारे-परमेश्वर-का	מִמֶּנּוּ हमसे	עַד तक	לְהַבְרֵךְ काम-में	הַזֶּה: इस	פ פ
	H5704	H7725	H2740	H0639	H0430	H5704	H5704	H1697	H2088	

पूरे समूह के सभा की ओर से हमारे प्रमुखों को निर्णय करने दो। तब निश्चित समय पर हमारे नगरों का हर एक व्यक्ति जिसने किसी विदेशी स्त्री से विवाह किया है, यरूशलेम आए। उन्हें अपने अग्रजों (प्रमुखों) और नगरों के न्यायाधीशों के साथ यहाँ आने दिया जाये। तब हमारा परमेश्वर हम पर क्रोधित होना छोड़ देगा।"

זאת	על-	עמרו	תקוה	בן	ויחיה	עשהאל	בן	יונתן	אד	15
इस	के-प्रति	विरोध-किया	तिकवाह-का	पुत्र	और-यहज्याह	असाहेल-का	पुत्र	योनातान	केवल	
H2063		H5975	H8616		H3167	H6214		H3129	H0389	

עזרם:	הלוי	ושבתו	ומשולם
उनका-समर्थन-किया	लेवीय-ने	और-शब्वतै	और-मशुल्लाम
H5826	H3881	H7678	H4918

केवल थोड़े से व्यक्ति इस योजना के विरुद्ध थे। ये व्यक्ति थे असाहेल का पुत्र योनातान और तिकवा का पुत्र यहज्याह थे। लेवीवंशी मशुल्लाम और शब्वतै भी इस योजना के विरुद्ध थे।

ראשי	אנשים	הכהן	עזרא	ויבדלו	הגולה	בני	כך	ויעשו-	16
मुखियाओं	कुछ	याजक-ने	एज्रा	और-अलग-किए-गए	बंधुआई-से-आए-लोगों-के	वंशजों-ने	ऐसा	और-किया	
H0376	H3548	H5830	H0914	H1473					

לחדש	אחד	ביום	וישב	בשמות	וכלם	אבתם	לבית	האבות
महीने-के	पहले	दिन-को	और-वे-बैठे	नामों-से	और-सबको	पितरों-के	घरानों-के-अनुसार	पितरों-के-घरानों-के
H2320	H0259	H3117	H3427	H8034	H3605	H0001		H0001

הדבר:	לדריוש	העשירי
मामला	जाँचने-को	दसवें
H1697	H1875	H6224

अतः इस्राएल के वे लोग, जो यरूशलेम में वापस आए थे, उस योजना को स्वीकार करने को सहमत हो गए। याजक एज्रा ने परिवार के प्रमुख पुरुषों को चुना। उसने हर एक परिवार समूह से एक व्यक्ति को चुना। हर एक व्यक्ति नाम लेकर चुना गया। दसवें महीने के प्रथम दिन जो लोग चुने गए थे हर एक मामले की जाँच के लिये बैठे।

לחדש	אחד	יום	עד	נכריות	נשים	החשוב	אנשים	בכל	ויכלו	17
महीने-के	पहले	दिन	तक	विदेशी	पत्नियाँ	जिन्होंने-ली-थीं	पुरुषों	सब	और-वे-पूरा-कर-चुके-पूछना	
H2320	H0259	H3117	H5704	H5237	H0802	H3427	H0376	H3605	H3615	

פ	הראשון:
פ	पहले
	H7223

पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सभी व्यक्तियों पर विचार करना पूरा कर लिया जिन्होंने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया था।

ויצדק	בן	ישוע	מבני	נכריות	נשים	החשוב	אשר	הכהנים	מבני	וימצא	18
योसादाक-के	पुत्र	येशूआ-के	पुत्रों-में-से	विदेशी	—	—	—	—	—	—	
		H3442		H5237	H0802	H3427		H3548		H4672	

ווגדליה:	ויריב	ואליעזר	מעשה	ואחיו
और-गदल्याह	और-यारीब	और-एलीएजेर	मआसेयाह	और-उसके-भाइयों
	H3402	H0461	H4641	H0251

याजकों के वंशजों में ये नाम हैं जिन्होंने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया: योसादाक के पुत्र येशू के वंशजों, और येशू के भाइयों में से ये व्यक्ति: मासेयाह, एलीआज़र, यारीब और गदल्याह ।

צאן	איל-	נאשמים	נשיהם	להוציא	ידם	ויהגו	19
भेड़ों-में-से	एक-मेंढा-चढ़ाया	और-दोषी-होने-के-कारण	अपनी-पत्नियों	कि-वे-निकालेंगे	अपना-वचन	और-उन्होंने-दिया	
H6629		H0818	H0802	H3318	H3027	H5414	

ס	אשמתם:	על-
ס	अपने-दोष-बलि-के	के-रूप-में
	H0819	

इन सभी ने अपनी —अपनी पत्नियों से सम्बन्ध —विच्छेद करना स्वीकार किया और तब हर एक ने अपने रेवड़ से एक —एक मेंढा अपराध भेंट के रूप में चढ़ाया। उन्होंने ऐसे अपने —अपने अपराधों के कारण किया।

20	וּמְבִנֵי	אֲמִר	חַנְנִי	וְזַבְדִּיָּהּ:	ס
	और-पुत्रों-में-से	इम्मेर-के	हनानी	और-जबद्याह	स
		H0564	H2607	H2069	

हम्मेर के वंशजों में से ये व्यक्ति: हनानी और जबद्याह।

21	וּמְבִנֵי	חָרָם	מַעֲשִׂיָּה	וְאֵלִיָּהּ	וְשִׁמְעֵיָּה	וַיְחִיאֵל	וְעֲזַיָּהּ:
	और-पुत्रों-में-से	हारीम-के	मआसेयाह	और-एलियाह	और-शमैयाह	यहीएल	और-उज्जियाह
		H2766	H4641	H0452	H8098	H3171	H5818

हारीम के वंशजों में से ये व्यक्ति थे: मासेयाह, एलियाह, शमायाह, यहीएल और उज्जियाह।

22	וּמְבִנֵי	פְּשָׁחוֹר	אֶלְיֹעֲנָי	מַעֲשִׂיָּה	יִשְׁמַעֵאל	נְתַנְאֵל	יּוֹזָבָד	וְאֵלְעָשָׂה:
	और-पुत्रों-में-से	पशहूर-के	एल्योएनै	मआसेयाह	इश्माएल	नतनेल	योजाबाद	और-एल्आसाह
		H6583		H4641	H3458	H5417	H3107	H0501

पशहूर के वंशजों में से ये व्यक्ति थे: एल्योएनै, मासेयाह, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा।

23	וּמְבִנֵי	הַלְוִיִּים	יּוֹזָבָד	וְשִׁמְעִי	וְקִלְיָהּ	הָוָה	קְלִיטָּא	פְּתַחְיָהּ	יְהוּדָה	וְאֵלְעִזָּר:
	और	लेवियों-में-से	योजाबाद	और-शिमई	और-केलायाह	वह	कलीता	पतह्याह	यहूदाह	और-एलीएजेर
		H3881	H3107	H8096	H7041	H1931	H7042	H6611	H3063	H0461

ס
ס

लेवीवंशियों में से इन व्यक्तियों ने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया: योजाबाद, शिमी, केलायाह (इसे कलीता भी कहा जाता है) पतह्याह, यहूदा और एलीआज़र।

24	וּמְבִנֵי	הַמְּשָׁרְתִים	אֶלְיָשִׁיב	וּמְבִנֵי	הַשְּׁעָרִים	שְׁלֹמֹם	וְטָלֵם	וְאֹרִי:
	और	गायकों-में-से	एल्याशीब	और	द्वारपालों-में-से	शल्लूम	और-तेलेम	और-ऊरी
		H7891	H0475		H7778	H7967	H2928	H0221

गायकों में केवल यह व्यक्ति है, जिसने विदेशी स्त्री से विवाह किया: एल्याशीब। द्वारपालों में से ये लोग हैं जिन्होंने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया: शल्लूम, तेलेम और ऊरी।

25	וּמְבִנֵי	וּמְיִשְׂרָאֵל	מְבִנֵי	פְּרֹעַשׁ	רְמְיָהּ	וַיְיָהּ	וּמְלִכְיָהּ	וּמְיָמִין
	और-पुत्रों-में-से	और-इसाएल-में-से-औरों-में	पुत्रों-में-से	पर्योश-के	रम्याह	और-यिज्जियाह	और-मल्कियाह	और-मियामीन
		H3478		H6551	H7422	H3150	H4441	H4326

וְאֵלְעִזָּר:	וּמְלִכְיָהּ	וּבְנָיָהּ:
और-एल्आजार	और-मल्कियाह	और-बनायाह
H0499	H4441	H1141

इसाएल के लोगों में से ये लोग हैं जिन्होंने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया: परोश के वंशजों से ये व्यक्ति: रम्याह, यिज्जियाह, मलिकयाह, मियामीन, एलीआज़र, मल्कियाह और बनायाह।

26	וּמְבִנֵי	עֵלָם	מַתְנַיָּה	זְכַרְיָהּ	וַיְחִיאֵל	וְעַבְדֵי	וִירְמוֹת	וְאֵלִיָּהּ:
	और-पुत्रों-में-से	एलाम-के	मत्तन्याह	जकर्याह	यहीएल	और-अब्दी	यरेमोत	और-एलियाह
			H4983		H3171	H5660	H3406	H0452

एलाम के वंशजों में से ये व्यक्ति: मत्तन्याह, जकर्याह, यहीएल, अब्दी, यरेमोत और एलियाह।

27	וּמְבִנֵי	זַחְוָא	אֶלְיֹעֲנָי	אֶלְיָשִׁיב	מַתְנַיָּה	וִירְמוֹת	וּזְבָד	נְעִיזָא:
	और-पुत्रों-में-से	जत्तू-के	एल्योएनै	एल्याशीब	मत्तन्याह	यरेमोत	और-जाबाद	और-अजीजा
		H2240		H0475	H4983	H3406	H2066	H5819

जत्तू के वंशजों में से ये व्यक्ति: एल्योएनै, एल्याशीब, मत्तन्याह, यरेमोत जाबाद और अजीजा।

28	וּמְבִנֵי	בְּבָי	יְהוֹחָנָן	חֲנַנְיָהּ	זְבִי	עֲתַלְיָ:	ס
	और-पुत्रों-में-से	बेबै-के	यहोहानान	हनन्याह	जब्बै	अतलै	स
			H3076	H2079	H6270	H0893	

बेबै के वंशजों में से ये व्यक्ति: यहोहानान, हनन्याह जब्बै, और अतलै।

29	וּמְבִנֵי	בְּנֵי	מְשֻׁלָּם	מְלוּחַ	וְעֲדָיָהּ	יָשׁוּב	וְשָׂאֵל	אִירְמוֹתַי	ס
	—	—	—	मल्लूक	और-अदायाह	याशूब	और-शएल	और-रामोत	स
				H4918	H5718	H3437	H7594	H3406	H3406

बानी के वंशजों में से ये व्यक्ति: मुशल्लाम, मल्लूक, अदायाह, याशूब, शाल और यरामोत।

30	וּמְבִנֵי	פַּחַת	מוֹאָב	עֲדָנָא	וּכְלָל	בְּנָיָהּ	מַעֲשִׂיָהּ	מִתַּנְיָהּ	בְּצַלְלָאֵל	וּבְנָוִי
	और-पुत्रों-में-से	के	पहत-मोआब	अदना	और-कलाल	बनायाह	मासेयाह	मत्तन्याह	बसलएल	और-बिद्रूई
			H6355	H5733	H3636	H1141	H4641	H4983	H1212	H1131

וּמְנַשֶּׁה:
और-मनश्शेह
[H4519](#)

पहतमोआब के वंशजों में से ये व्यक्ति: अदना, कलाल, बनायाह, मासेयाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिद्रूई और मनश्शे।

31	וּבְנֵי	חָרָם	אֱלִיעֶזֶר	יִשְׁיָהּ	מַלְכִיָּהּ	שְׁמַעְיָהּ	שִׁמְעוֹן:
	और-पुत्रों-में-से	हारीम-के	एलीएजर	यिश्शियाह	मल्कियाह	शमैयाह	शिम्ओन
		H2766	H0461	H3449	H4441	H8098	H8095

हारीम के वंशजों में से ये व्यक्ति: एलिआज़र, यिश्शियाह, मल्कियाह, शमायाह, शिमोन,

32	בְּנֵימִן	מְלוּחַ	שְׁמַרְיָהּ:
	बिन्यामीन	मल्लूक	शमर्याह
	H1144		H8114

बिन्यामीन, मल्लूक और शमर्याह।

33	מְבִנֵי	חָשׁוּם	מִתְנַי	מִתְתָּהּ	זָבַד	אֱלִיפֶלֶט	יָרְמֵי	מְנַשֶּׁה	שְׁמַעְיָ:
	पुत्रों-में-से	हशूम-के	मत्तनै	मत्तताह	जाबाद	एलीपेलेत	यरेमै	मनश्शेह	शिमई
		H2828	H4982	H4992	H2066	H0467	H3413	H4519	H8096

हाशूम के वंशजों में से ये व्यक्ति: मत्तनै, मत्तता, जाबाद, एलीपेलेत, यरेमै, मनश्शे और शिमी।

34	מְבִנֵי	בְּנֵי	מַעֲדֵי	עֲמָרָם	וְאוּאֵל:
	पुत्रों-में-से	बानी-के	मादै	अग्राम	और-ऊएल
		H1137	H4572	H6019	H0177

बानी के वंशजों में से ये व्यक्ति: मादै, अग्राम, ऊएल;

35	בְּנָיָהּ	בְּדָיָהּ	כְּלָהּ	כְּלָהּ:
	बनायाह	बेद्याह	केलूह	केलूह
	H1141	H0912	H3622	H3622

बनायाह, बेदयाह, कलूही;

36	וּבְנָיָהּ	מְרִמֹת	אֱלִישִׁב:
	बन्याह	मरेमोत	एल्याशीब
	H2057	H4822	H0475

बन्याह, मरेमोत एल्याशीब:

37	מִתַּנְיָהּ	מִתְנַי	וְיַעֲשִׂי:
	मत्तन्याह	मत्तनै	यासे
	H4983	H4982	H3299

मत्तन्याह, मतनै, यासू;

38
וּבְנֵי שִׁמְעִי : וּבְנֵי אֲרִי
शिमई और-बिचूई और-बानी
[H8096](#) [H1131](#) [H1137](#)

बिचूई के वंशजों में से ये व्यक्ति: शिमी,

39
וְשִׁלְמִיָּהּ וְנָתָן : וְעָדָיָהּ
और-शलेम्याह और-नातान और-अदायाह
[H5718](#) [H5416](#) [H8018](#)

शलेम्याह, नातान, अदायाह;

40
מִכְנַדְבַּי שָׁשִׁי : שָׂרִי
मक्नदबै शाशै शारै
[H8298](#) [H8343](#) [H4367](#)

मक्नदबै, शाशै, शारै;

41
עֲזַרְיֵאל וְשִׁלְמִיָּהּ : שְׁמַרְיָהּ
अजरएल और-शलेम्याह शमर्याह
[H8114](#) [H8018](#) [H5832](#)

अजरएल, शलेम्याह, शमर्याह;

42
שְׁלֹמֹם אֲמַרְיָהּ : יוֹסֵף :
शल्लूम अमर्याह योसेफ
[H3130](#) [H0568](#) [H7967](#)

शल्लूम, अमर्याह, और योसेफ।

43
מִבְּנֵי נָבֹוּ וְעִיָּאֵל : זְבִידָא [ירון] (יָדָי) וְיוֹאֵל : בְּנָיָהּ
मिबन्नी-नेबो-के यईएल मत्तित्याह जाबाद जबीना यद्दो और-योएल बनायाह
[H1141](#) [H3100](#) [H3035](#) [H3035](#) [H2081](#) [H2066](#) [H4993](#) [H3273](#)

नेबो के वंशजों में से ये व्यक्ति: यीएल, मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, यद्दो, योएल, और बनायाह।

44
כָּל-אֵלֶּה [נשאי] (נְשָׂאוֹ) נָשִׁים נְכָרִיּוֹת וְנָשִׁים : מִהֵם נְשִׁים
के-सब वे [--] ली-थी-जिन्होंने पत्नियाँ पत्नियाँ और-थे विदेशी पत्नियाँ उनमें-से-कुछ-की पत्नियाँ
[H0802](#) [H1992](#) [H3426](#) [H5237](#) [H0802](#) [H5375](#) [H5375](#) [H0428](#) [H3605](#)

נְשִׁימוֹ : בָּנִים :
और-जिनसे-हुए-थे-उनके बच्चे

इन सभी लोगों ने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया था और इनमें से कुछ के इन पत्नियों से बच्चे भी थे।